

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		जून 30	मई 24	मई 31	जून 7	जून 14	जून 21	जून 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	20917	5175	7219	6799	6696	6606	10411
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	22503	34953	28830	30883	29232	27126	24135
1.3 राज्य सरकारें	5701	35098	37927	37927	42427	44407	44835	46310
1.4 अन्य	88670	128280	111972	110051	103417	99172	95368	88554
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	72494	72514	66301	66915	64359	61859	54590
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	131141	69402	69388	62478	58413	58731	66312
2.3 राज्य सरकारें	4070	18791	9152	9842	9842	10842	14592	14592
2.4 अन्य	102311	135365	122088	124315	126606	129228	127409	123098
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	78636	97274	96254	94635	92786	92156	92592
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	173343	152797	152028	155138	152296	145237	143140
3.3 राज्य सरकारें	41487	50712	41120	41131	41056	36416	37753	38191
3.4 अन्य	165095	145021	161929	159718	154228	154918	158607	156268
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	171431	200174	180187	120227	222113	245624	204835
4.4 अन्य	442	956	390	1700	1031	550	379	592
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	1012301	916304	903004	894426	878765	870281	858193

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।